

CHHATTISGARH
JUDICIAL SERVICE
EXAMINATION (MAINS) 2014

Time : 3 hrs.

Marks : 100

Q.1 Read the following carefully and write judgement after framing necessary issues: 40

The plaintiff Ram Naresh Yadav filed a suit for eviction and damages against the defendant Surjeet Singh on 10.1.2013. According to plaintiff, he is owner of the suit house situated at village Silyari, District Raipur and the defendant is his tenant on a monthly rent of Rs. 500/- (Rs. Five hundred only). However, despite notice under Section 106 of the Transfer of Property Act dated 7.9.2012, the defendant did not vacate the suit premises. The defendant, while admitting the factum of tenancy, denied the plaintiff's averments inter alia on the ground that plaintiff's son Somesh entered into an agreement to sell the suit premises with him for a sale consideration of Rs. 65,000/- (Rs. Sixty five thousand only) on 20.1.2001, out of which he has already paid him Rs. 59,000/- (Rs. Fifty nine thousand only) on different dates, and after execution of aforesaid agreement of sale, now he is in its possession as owner/ prospective purchaser and not as tenant and the suit is liable to be dismissed.

The plaintiff produced and proved Rent Note Ex. P1 dated 20.10.1999, legal notice Ex. P - 2 dated 7.9.2012 and its acknowledgement Ex. P-3, whereas defendant produced the agreement of sale Ex. D1 dated 20.1.2001 said to be executed between plaintiff's son Somesh and him and one diary Ex. D2 showing payments received by Somesh, Defendant also filed copy of legal notice sent by him through his lawyer to the plaintiff claiming the suit premises in his possession in part performance of the contract and not as a tenant, after execution of agreement of sale. Apart from document evidence plaintiff examined himself as PW-1 whereas defendant examined himself DW-1 as well as plaintiff's another son Rakesh as DW-2, in which he has given evidence corroborating the agreement between defendant and Somesh.

(Note: C.G. Accommodation Control Act is not applicable on the subject matter of suit)

Q.2 Read the following carefully and write judgement after framing necessary charge. 40

On 10 March 2014, while returning back to his house sometime between 8 p.m. to 9 p.m. in the evening, after dropping his brother to Raipur Airport, A was stopped by accused 'B' with an unidentified person, who were armed with pistol, and asked him to handover his wristwatch valued at Rs. 2,000 one gold chain valued at Rs. 30,000 and his purse containing Rs. 2,000 by putting him to the fear of death at gun point. 'A' handed over the three items to 'B' and accompanying person out of fear. 'A' reported the incident to 'C', the Station Officer, Civil Lines Police Station, Raipur around 10 p.m. An FIR (Ex-P1) was lodged accordingly. "C" interrogated "B" on 12 March 2014 after taking him in his custody as a suspect. A wrist watch (Article Q-1) was recovered from a box lying in the house of 'B' situated at Civil Lines, Raipur and gold chain (Article. Q-2) from goldsmith 'D', on the basis of information given by 'B' to 'C' during interrogation. 'A' identified the wristwatch and the gold chain as his property in the identification

proceedings before the Deputy Collector. 'B' was prosecuted for the offence under Section 392 of Indian Penal Code.

'A' (PW-1) supported the story of the prosecution and has stated that he identified the wristwatch and gold chain in the identification proceedings in the Collectorate. He has denied that the wristwatch and the gold chain were shown to him before hand at the Police Station.

'C' (PW-2), the Station Officer, P.S. Civil Lines, Raipur, while supporting the story of the prosecution, has stated that a wristwatch (Article Q-1) was recovered from a box lying in the house of 'B' and a gold chain (Article Q-2) was recovered from goldsmith 'D' on the basis of information given by B.

Goldsmith 'D' has stated that 'B' claiming himself owner of it, sold a gold chain (Article Q-2) to him on 11 March, 2014 for Rs. 20,000, which has been entered in Register P-2.

Deputy Collector 'K' (PW-4) has stated that he conducted identification proceedings in the Collectorate on 12 March, 2014 for identification of wristwatch (Article Q-1) and Goldchain (Article Q-2), in which 'A' identified both the item correctly. <https://www.pyqonline.com>

The defence of accused 'B' is that he has not committed and robbery and the wristwatch and chain were shown to 'A' at the Police Station before hand and the identification proceedings are nothing but farce. He has also stated that he did not sell any chain to goldsmith 'D' and that the police did not conduct any identification parade to get him. identified by 'A' and 'D'.

Q.3 अ- निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ।

Translate the following Hindi passage into English.

[10]

भूल, जैसा कि विधिशास्त्र में एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, सत्य के मिथ्याबोध या भ्रान्ति द्वारा उत्प्रेरित एक गलत मानसिक स्थिति, संकल्पना या विश्वास है, तथा एक संव्यवहार के एक अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा किसी कार्य का कार्यलोप अथवा गलत प्रकार से भोगा है, परंतु तत्समय इसके गलत होने की प्रकृति आशयित अथवा ज्ञात हुए बिना यह अन्तर्गस्त विधि अथवा तथ्य से संबंधित हो सकती है। एक तथ्य की भूल संव्यवहार से सारवान गत या वर्तमान एक तथ्य की निश्चेतना, अज्ञानता या विस्मरणशीलता में निहित है, या ऐसे संव्यवहार के लिए एक सारवान चीज के वर्तमान अस्तित्व में, जो अस्तित्व में नहीं है या एक ऐसी चीज के गत अस्तित्व में जो अस्तित्व में नहीं थी ।

दण्ड संहिता की अधीन भूल तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं ! जहां भूल के कारण, एक व्यक्ति एक विधिजन्य कार्य करने के आशय से ऐसा कार्य करता है जो अवैधानिक है, वह कार्य तथा इच्छा पृथक क्रियाशील होंगे। उनके माध्यम ऐसा समायोजन नहीं है जो आपराधिक कार्य को गठित करने के लिए आवश्यक हो । परंतु जहां एक कार्य स्वयं में एक अपराध है, तथा एक व्यक्ति, तथ्यों के संबंध में एक भ्रान्त धारणा के अधीन, जो उसे

आपराधिक बनाती है, उस कार्य को करता है, वह दण्डिक अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार एक सेंधमार यह कहकर दण्ड से नहीं बच पायेगा कि भूल से उसने एक गलत घर में प्रवेश कर लिया, न ही किसी हत्यारे को यह कहते हुए सुना जायेगा कि मृतक उसका आशयित शिकार नहीं था। इनमें से किसी भी मामले में तथ्य की भूल क्षम्य नहीं है ।

प्र०3 ब- निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए ।

Translate the following English passage into Hindi.

[10]

"If there is any part of the Constitution which can be called a lawyer's paradise on the basis of the extent of litigation that it has caused so far, it is the chapter which embodies the Fundamental Rights. Even a casual glance over the pages of the Supreme Court reports will show that there have been more cases in this area than in any other. Critics of the Constitution were severe on the provisions at the time of their adoption and predicted that they would beat all records as a source of litigation. But it stands to the credit of the Constitution that even in this field, the number of cases has not been too large. Normally Fundamental Rights, by their very nature provide a continuously rich source of litigation. The conflict between man and the state is a perennial problem. As such, any Constitution that guarantees fundamental rights and makes the judiciary its protector makes also an invitation to litigation. The bill of rights under the American Constitution is the best example. The fact that the American Bill of Rights is couched in the simplest language imaginable did not in any way reduce litigation. On the contrary, The American Supreme Court, again and again, in thousands of cases, was called upon to adjudicate the competing claims of individual freedom and social control. It is not a fact that in India, the litigation arising out of the provisions of the chapter on fundamental rights has been due to the detailed nature of the provisions or because of the numerous exceptions and qualifications. Such litigation is an inevitable expression of the democratic vigilance in regard to the freedom of the individual. It is a sign of health and not necessarily the result of any defects in the law.

छत्तीसगढ़
व्यवहार न्यायाधीश
मुख्य परीक्षा वर्ष-2014

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 100

प्र० 1. निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक वादपत्र निर्मित करके निर्णय लिखें। [40]

वादी रामनरेश यादव ने 10.1.2013 को प्रतिवादी सुरजीत सिंह के विरुद्ध बदखली तथा नुकसानी का दावा करते हुए वाद संस्थित किया। वादी के अनुसार वह ग्राम सिलयारी, जिला रायपुर में स्थित वाद गृह का स्वामी है तथा प्रतिवादी 500 रुपये (पाच सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह किराये पर उसका किरायेदार है। तथापि, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 की अधीन नोटिस दिनांक 7.9.2012 के बावजूद प्रतिवादी ने वाद परिसर खाली नहीं किया है। प्रतिवादी ने, किरायेदारी को स्वीकार करते हुए, वाद कथनों को अन्य बातों के साथ, इस आधार पर अस्वीकार किया है कि वादी के पुत्र सोमेश ने उसके साथ दिनांक 20.1.2001 को रुपये 65,000/- (पैंसठ हजार रुपये मात्र) विक्रय प्रतिफल के लिए वाद परिसर के विक्रय का करार किया है, जिसमें से वह विभिन्न तिथियों में रुपये 59,000/- (उनसठ हजार रुपये मात्र) का भुगतान कर चुका है। अब उपरोक्त करार के निष्पादन के उपरांत उसका कब्जा/स्वामी/भावी क्रेता के रूप में है, किरायेदार के रूप नहीं और वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वादी ने किरायेदारी पत्र प्रदर्श पी-1 दिनांक 20.10.1999 विधिक नोटिस प्रदर्श पी-2 दिनांक 7.9.2012 तथा उसकी पावती प्रदर्श पी - 3 प्रस्तुत एवं साबित किए हैं, जबकि प्रतिवादी ने तथाकथित विक्रय करार प्रदर्श डी -1 दिनांक 20.1.2001 जो वादी के पुत्र सोमेश तथा उसके मध्य निष्पादित हुआ है तथा सोमेश द्वारा भुगतान पावती प्रदर्शित करते हुए एक डायरी प्रदर्श डी - 2 प्रस्तुत की है। प्रतिवादी ने उसके द्वारा यह दावा करते हुए कि विक्रय करार निष्पादन के उपरांत वाद परिसर उसके कब्जे में संविदा के आंशिक पालन में है तथा किरायेदार के रूप में नहीं, उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को प्रेषित नोटिस प्रस्तुत किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त वादी ने अपना परीक्षण पी डब्ल्यू-1 के रूप में जबकि प्रतिवादी ने अपना परीक्षण डी डब्ल्यू-1 के रूप में एवं वादी के दूसरे पुत्र राकेश का परीक्षण डी डब्ल्यू-2 के रूप में किया है, जिसमें उसने प्रतिवादी एवं सोमेश के मध्य करार के समर्थन में साक्ष्य दिया है।

(नोट: छ० ग० आवास नियंत्रण अधिनियम इस वाद की विषय वस्तु पर लागू नहीं है।)

प्र०2 निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक आरोप निर्मित करके निर्णय लिखें। [40]

दिनांक 10 मार्च, 2014 को रात लगभग 8:00 से 9:00 बजे के बीच 'अ' रायपुर एयरपोर्ट से भाई को छोड़कर घर आ रहा था। रास्ते में अभियुक्त 'ब' तथा उसके एक अज्ञात साथी ने जो पिस्तौल से लैस थे, 'अ' को रोककर उसे पिस्तौल की नोक पर जान से मारने का भय दिखाकर उससे उसकी घड़ी मूल्य 2,000 रुपये, सोने की चेन मूल्य 30,000/- रुपये, तथा पर्स जिसमें 2,000 रुपये रखे थे, मांगे। डर के कारण 'अ' ने तीनों चीजें 'ब' और उसके साथी को सौंप दी। 'अ' ने रात लगभग 10:00 बजे इस घटना की जानकारी आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन्स, रायपुर के थाना प्रभारी 'स' को दी, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी - 1) लिखी गई। दिनांक 12 मार्च, 2014 को 'स' ने संदेह के आधार पर 'ब' को अभिरक्षा में लेकर उससे घटना के बारे में पूछताछ की। 'ब' द्वारा 'स' को दी गई जानकारी के आधार पर 'ब' के सिविल लाइन्स घर में रखे बक्से से 'स' द्वारा घड़ी (आर्टिकल क्यू-1) तथा सुनार 'द' से सोने की चेन आर्टिकल क्यू-2) बरामद की गई। डिप्टी कलेक्टर 'क' के समक्ष पहचान कार्यवाही में 'अ' ने घड़ी तथा सोने की चेन को अपनी होना बताया। 'ब' को धारा 392 भा० द०स० के अपराध के लिए अभियोजित किया गया।

<https://www.pyqonline.com>

'अ' (अ०सा० 1) ने अभियोजन कहानी का समर्थन करते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट में संपादित पहचान कार्यवाही में उसने अपनी घड़ी व चेन पहचानी थी। उसने यह अस्वीकार किया कि घड़ी व चेन उसे पहले ही थाने में दिखा दी गयी थी। 'स' थाना प्रभारी सिविल लाइन्स, रायपुर (अ०सा० 2) ने मामले का समर्थन करते हुए बताया कि 'ब' द्वारा की गयी जानकारी के आधार पर उसके घर में रखे बक्से से घड़ी (क्यू - 1) तथा सुनार 'द' से सोने की चेन (क्यू-2) उसने बरामद की थी। सुनार 'द' (अ०सा० 3) बताया कि 11 मार्च 2014 को अभियुक्त 'ब' ने सोने की चेन (क्यू-2) को अपने स्वामित्व में बताते हुए उसे 20,000 रुपये में विक्रय किया था, जिसका इन्द्राज रजिस्टर पी-2 में किया गया है।

'क' डिप्टी कलेक्टर (अ०सा० 4) ने बताया है कि दिनांक 2 मार्च 2014 की कलेक्ट्रेट में उसने 'अ' से घड़ी (आर्टिकल क्यू - 1) तथा चेन (आर्टिकल क्यू-2) की पहचान कराई थी तथा 'अ' ने दोनों को सही पहचान लिया था। अभियुक्त 'ब' ने प्रतिरक्षा में कहा कि उसने कोई लूट नहीं की है तथा घड़ी व चेन 'अ' को थाने में पहले से ही दिखा दी गई थी। पहचान कार्यवाही मात्र दिखावा है। उसने यह भी कहा कि उसने 'द' को कोई चेन विक्रय नहीं की है तथा पुलिस ने पहचान परेड कराकर 'अ' तथा 'द' से उसकी पहचान कराने का प्रयास नहीं किया।

प्र०3 अ- निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए।

Translate the following Hindi passage into English. [10]

भूल, जैसा कि विधिशास्त्र में एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, सत्य के मिथ्याबोध या भ्रांति द्वारा उत्प्रेरित एक गलत मानसिक स्थिति, संकल्पना या विश्वास है, तथा एक संव्यवहार के एक अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा किसी कार्य का कार्यलोप अथवा गलत प्रकार से भोगा है, परंतु तत्समय इसके गलत होने की प्रकृति आशयित अथवा ज्ञात हुए बिना यह अन्तर्ग्रस्त विधि अथवा तथ्य से संबंधित हो सकती है। एक तथ्य की भूल संव्यवहार से सारवान गत या वर्तमान एक तथ्य की निश्चेतना, अज्ञानता या विस्मरणशीलता में निहित है, या ऐसे संव्यवहार के लिए एक सारवान चीज के वर्तमान अस्तित्व में, जो अस्तित्व में नहीं है या एक ऐसी चीज के गत अस्तित्व में जो अस्तित्व में नहीं थी ।

दण्ड संहिता की अधीन भूल तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं ! जहां भूल के कारण, एक व्यक्ति एक विधिजन्य कार्य करने के आशय से ऐसा कार्य करता है जो अवैधानिक है, वह कार्य तथा इच्छा पृथक क्रियाशील होंगे। उनके माध्यम ऐसा समायोजन नहीं है जो अपराधिक कार्य को गठित करने के लिए आवश्यक हो । परंतु जहां एक कार्य स्वयं में एक अपराध है, तथा एक व्यक्ति, तथ्यों के संबंध में एक भ्रान्त धारणा के अधीन, जो उसे अपराधिक बनाती है, उस कार्य को करता है, वह दण्डिक अपराध का दोषी होगा। इस प्रकार एक संधमार यह कहकर दण्ड से नहीं बच पायेगा कि भूल से उसने एक गलत घर में प्रवेश कर लिया, न ही किसी हत्यारे को यह कहते हुए सुना जायेगा कि मृतक उसका आशयित शिकार नहीं था। इनमें से किसी भी मामले में तथ्य की भूल क्षम्य नहीं है ।

प्र०3 ब- निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद कीजिए ।

Translate the following English passage into Hindi. [10]

"If there is any part of the Constitution which can be called a lawyer's paradise on the basis of the extent of litigation that it has caused so far, it is the chapter which embodies the Fundamental Rights. Even a casual glance over the pages of the Supreme Court reports will show that there have been more cases in this area than in any other. Critics of the Constitution were severe on the provisions at the time of their adoption and predicted that they would beat all records as a source of litigation. But it stands to the credit of the Constitution that even in this field, the number of cases has not been too large. Normally Fundamental Rights, by their very nature provide a continuously rich source of litigation. The conflict between man and the state is a perennial problem. As such, any Constitution that guarantees fundamental rights and makes the judiciary its protector makes also an invitation to litigation. The bill of rights under the American Constitution is the best example. The fact that the American Bill of Rights is couched in the simplest language imaginable did not in any way reduce litigation. On the contrary, The American Supreme Court, again and again, in thousands of cases, was called upon to adjudicate the completing

claims of individual freedom and social control. It is not a fact that in India, the litigation arising out of the provisions of the chapter on fundamental rights has been due to the detailed nature of the provisions or because of the numerous exceptions and qualifications. Such litigation is an inevitable expression of the democratic vigilance in regard to the freedom of the individual. It is a sign of health and not necessarily the result of any defects in the law.